




Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

**Provisional Certificate
for COVID-19 Vaccination
(1 st Dose)**



Beneficiary Details

Beneficiary Name / लाभार्थी का नाम
S Muthamil

Age / उम्र
28

Gender / लिंग
Male

ID Verified / पहचान पत्र सत्य
Aadhaar #XXXXXXXX810

Beneficiary Reference ID
31562267505581

Residing at / पता
Krishnagiri
Tamil Nadu

Vaccination Details

Vaccine Name / वैक्सीन का नाम
COVISHIELD

Date of Dose / खुराक की तारीख
16 Mar 2021 (Batch no. 4121Z011)

Next Due Date / अगली नियत तिथि
after 28 days

Vaccinated by / टीका लगाने वाले का नाम
Amose Kirubakaran

Vaccination at / टीकाकरण का स्थान
Kelamangalam Upgraded PHC, Krishnagiri
Tamil Nadu

**“ दवाई भी और कड़ाई भी।
Together, India will defeat COVID-19 ”
- Prime Minister**



In case of any adverse events, kindly contact the nearest Public Health Center/Healthcare Worker/District Immunization Officer/State Helpline No. 1075

टीकाकरण के दौरान किसी भी प्रकार की घटना के होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कर्मी/जिला टीकाकरण अधिकारी/राज्य हेल्प लाइन 1075 पर सम्पर्क करें